



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 683]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 9, 2017/श्रावण 18, 1939

No. 683]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 9, 2017/SRAVANA 18, 1939

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2017

**सा.का.नि. 1004(अ).—** राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियम 2016, का संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियम, 2017 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियमावली 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में--  
(क) उक्त नियमों के नियम 4 के, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

\*(1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को, सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य पद, उनकी संख्या और वेतनमान निम्नानुसार होंगे, अर्थात:-

तालिका

क्रम सं०	सातवाँ केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में ग्रेड, स्तर	पद का नाम	पदों की संख्या
1.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी प्लस(एचएजी प्लस) स्तर-16	महानिदेशक (सामाजिक सांख्यिकी), केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली महानिदेशक (आर्थिक सांख्यिकी), केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली	05

		<b>महानिदेशक (सर्वेक्षण),</b> राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली <b>महानिदेशक (सांख्यिकी),</b> श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली <b>महानिदेशक (सांख्यिकी),</b> स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली	
2	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (एचएजी) स्तर-15	अपर महानिदेशक	18
3.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी) स्तर-14	उपमहानिदेशक	136
4	अकृत्यिक चयन श्रेणी (एनएफएसजी) स्तर-13	निदेशक	ज्येष्ठ कर्तव्य (ड्यूटी) पद का 30 प्रतिशत (अर्थात् ज्येष्ठ समयमान और उससे ऊपर के पद)
5	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जेएजी) स्तर-12	संयुक्त निदेशक	176
6.	ज्येष्ठ समयमान (एसटीएस) स्तर- 11	उप-निदेशक	179
7.	कनिष्ठ समयमान (जेटीएस) स्तर- 10	सहायक निदेशक	250
8. अवकाश/प्रशिक्षण रिज़र्व		50	
		814	
<b>टिप्पणी:</b> इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को विभिन्न मंत्रालयों या विभागों में भारतीय सांख्यिकीय सेवा के कर्तव्य (ड्यूटी) पदों का विवरण इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची IV में यथा विनिर्दिष्ट होगा।			

(ख) उक्त नियमों के नियम 7 में,-

(i) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) कनिष्ठ समयमान के कुल कर्तव्य (ड्यूटी) पदों का पचास प्रतिशत अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवाओं के स्तर 7 के ऐसे अधिकारियों में से, जिन्होंने इस लेवल में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे";

(ii) उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:-

"(7) जहां राज्य या संयुक्त काडर का कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी स्तर 11, 12, 13, 14 या 15 के किसी स्तर पर विनिर्दिष्ट श्रेणी में केंद्र में तैनात किया जाता है, तो इस सेवा के उन सदस्यों को, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के इस अधिकारी से दो वर्षों या उससे अधिक ज्येष्ठ हैं तथा उन्हें उस विशिष्ट श्रेणी में अभी तक

प्रोन्नत नहीं किया गया है, की नियुक्ति, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी की उस विशिष्ट श्रेणी में तैनाती की तारीख से, अकृत्यिक आधार पर उसी श्रेणी में होगी और यह कि, सुसंगत श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अर्हता मानदंडों को पूरा करने तथा केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों तथा अनुसूची-V के अनुसार गठित द्वायनवीन समिति की सिफारिशों पर आधारित होगी।"

(ग) उक्त नियमों की अनुसूची-2 में क्रम सं. 7 के सामने स्तम्भ (2), (3), (4) तथा (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"7	कनिष्ठ समयमान	(i) श्रेणी की 50 प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा।  (ii) श्रेणी की 50 प्रतिशत रिक्तियां प्रोन्नति द्वारा	चयन	अनुसूची- I में विहित रीति में आयोग द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से  अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा में स्तर 7 के ऐसे अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने इस स्तर में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है।
----	---------------	---	-----	---

(घ) उक्त नियमों की अनुसूची-IV के, अंतिम पैरा में, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"\*कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के कुल पदों में से 30 प्रतिशत ज्येष्ठ कर्तव्य (ड्यूटी) पद अर्थात् सेवा के ज्येष्ठ समयमान तथा उससे ऊपर के स्तर के सभी कर्तव्य (ड्यूटी) पद, स्तर-13 में संचालित अकृत्यिक चयन श्रेणी में होंगे"।

[फा. सं. 12031/32/2016-आईएसएस]

अरुण कुमार यादव, संयुक्त सचिव

टिप्पण- मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्यांक 579 (अ) तारीख 7 जून, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2017

**G.S.R. 1004(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Statistical Service Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Indian Statistical Service (Amendment) Rules, 2017.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Statistical Service Rules 2016, (hereinafter referred as the said rules), \_\_  
(a) in rule 4 of the said rules, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

“(1)The duty posts included in various grades of the Service, their numbers and scales of pay, on the date of commencement of these rules shall be the following, namely:-

**TABLE**

Sl. No.	Grade, Level in pay matrix as per 7 <sup>th</sup> Central Pay Commission	Designation	Number of Posts
1	Higher Administrative Grade Plus (HAG Plus) Level-16	<b>Director General (Social Statistics)</b> , Central Statistics Office, MoSPI, New Delhi. <b>Director General (Economic Statistics)</b> , Central Statistics Office, MoSPI, New Delhi. <b>Director General (Survey)</b> , National Sample Survey Office, MoSPI, New Delhi. <b>Director General (Statistics)</b> , Ministry of Labour and Employment, New Delhi. <b>Director General (Statistics)</b> , Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.	05
2	Higher Administrative Grade (HAG ) Level-15	Additional Director General	18
3	Senior Administrative Grade (SAG ) Level-14	Deputy Director General	136
4	Non Functional Selection Grade (NFSG) Level-13	Director	30 percent of Senior duty posts (namely posts in Senior Time Scale and above)
5	Junior Administrative Grade (JAG) Level-12	Joint Director	176
6	Senior Time Scale (STS) Level-11	Deputy Director	179
7	Junior Time Scale (JTS) Level-10	Assistant Director	250
8	Leave/Training Reserve. 50 ..... <b>814</b> ..... Note: The Statement of the duty posts of Indian Statistical Service on the date of commencement of these rules in various Ministries or Departments is as specified in the Schedule-IV annexed to these rules".		

**(b) in rule 7 of the said rules,-****(i) for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:-**

“ (2) Fifty per-cent of the total duty posts in the Junior Time Scale shall be filled by promotion from amongst officers belonging to the Subordinate Statistical Service in Level-7 with three years regular service in the level ” ;

**(ii) for sub-rule (7) , the following shall be substituted, namely:-**

“ (7) Whenever any Indian Administrative Service officer of the State or Joint Cadre is posted at the Centre to a particular Grade at any of the levels 11, 12, 13, 14 or 15 the members of the Service, who are senior to such Indian Administrative Service officer by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade, shall be appointed to the same grade on Non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service officer in that particular grade and this shall be subject to satisfaction of eligibility criteria for promotion to the relevant Grade and other instructions issued by the Central Government from time to time and based on the recommendations of the Screening Committee constituted in accordance with Schedule-V ” ;

**(c) in Schedule-II of the said rules, the entries against Sl. No 7, in columns (2), (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-**

“ 7	Junior Time Scale	<p>(i) 50 percent of the vacancies in the Grade by direct recruitment.</p> <p>(ii) 50 percent of the vacancies in the Grade by promotion.</p>	Selection	<p>Through an open competitive examination held by the Commission in the manner prescribed in Schedule-I</p> <p>By promotion from amongst officers belonging to the Sub-ordinate Statistical Service in level 7 with three years regular service in the level.”</p>
-----	-------------------	---	-----------	---

**(d) in Schedule-IV of the said rules, the last para, the following shall be substituted, namely:-**

“ \*Of the total posts at Junior Administrative Grade, 30 percent of the senior duty posts, namely all duty posts at the level of Senior Time Scale and above in the Service will be in the Non Functional Selection Grade operated in level-13 ”.

[F. No. 12031/32/2016-ISS]

ARUN KUMAR YADAV, Jt. Secy.

**Note-** The principal rules were published in the Gazette of India, vide Number G.S.R. 579(E) dated the 7<sup>th</sup> June, 2016.